

ग्रामीण विकास विभाग - झारखण्ड सरकार

झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS)

संदर्भ - ADVERTISEMENT NO PR 172390 (JSLPS) 17-18

विषय - उपरोक्त सन्दर्भ में प्रकाशित मेरिट लिस्ट उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के लिए आगे की सूचना

उपरोक्त संदर्भ और विषयान्तर्गत, जिलेवार चयनित अभ्यर्थी ध्यान दें। मेरिट लिस्ट प्रकाशन के उपरांत प्रकाशन के उपरांत अब चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम दस्तावेज़ सत्यापन और योगदान देने हेतु बुलाया जाना है।

सर्वप्रथम, चयनित अभ्यर्थी अपने अनुबंध नियुक्ति पत्र का स्टैंडर्ड फॉर्मेट वेबसाइट www.jslps.org/career डाउनलोड कर लें। इसमें वर्णित सेवा शर्तों को ध्यान से पढ़ें। इसके उपरांत यदि आप सेवा शर्तों को स्वीकार करते हैं तो आगे की सूचना के अनुसार आप आगे की कार्यवाही में अवश्य भाग लें। अनुबंध नियुक्ति पत्र की मूल कॉपी सम्बंधित चयनित अभ्यर्थियों को आगे दिए गए विवरणानुसार बैच में बुलाये जाने पर हाथों-हाथ दे दिया जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न बैच में अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और योगदान देने हेतु बुलाया जायेगा। बैच और उनके लिए निर्धारित दिन, समय तथा जगह का विवरण अगले कुछ दिनों में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। **अतः योगदान तिथि, दिनांक, समय, स्थान आदि की जानकारी के लिए JSLPS के अधिकारिक वेबसाइट www.jslps.org को समय-समय पर देखते रहें।** जिन अभ्यर्थियों को जिस निर्धारित तिथि को बुलाया जा रहा है उन्हें उसी तिथि में आना है। निर्धारित तिथि के अलावा किसी अन्य तिथि पर आने की दशा में अभ्यर्थी को प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जायेगा और उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और योगदान देने सम्बन्धी प्रक्रिया दिनांक 6 अक्टूबर 2018 से प्रारम्भ होगी। यह प्रक्रिया 13 अक्टूबर तक निर्धारित बैच के अनुसार 2018 तक चलेगी। आवश्यकता होने पर इसे 2-3 दिनों के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

इस प्रक्रिया के पहले बैच में सभी जिले के मेरिट लिस्ट में ऊपर से 10 से 15 स्थान के अभ्यर्थियों को पहले बुलाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिए जाने पर सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। ऐसे बुलाये जाने वाले प्रथम बैच के अभ्यर्थियों को विशिष्टजनों की उपस्थिति में अनुबंध नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा सकता है। यह कार्यक्रम पूर्णतः JSLPS प्रबंधन के निर्णय के ऊपर है। इस सम्बन्ध में कोई भी फेर बदल JSLPS द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

JSLPS द्वारा सामुदायिक समन्वयक (प्रशिक्षु) पद के योगदान हेतु आगे की प्रक्रिया के लिए किसी भी तरह की सूचना इसके अधिकारिक वेबसाइट www.jslps.org के माध्यम से ही दी जाएगी। किसी अन्य श्रोत से भ्रामक सूचना का संज्ञान न लें।

इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति तथा उसकी एक छाया प्रति को अभिप्रमाणित करते हुए लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1. चयन प्रक्रिया हेतु जारी किया गया प्रवेश-पत्र (एडमिटकार्ड)
2. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के मूल एवं अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि संबंधित श्रेणी में आरक्षण का लाभ लिया गया है)।
4. सक्षम प्राधिकार से निर्गत निवास प्रमाण पत्र।
5. स्वयं के 6 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
6. फोटो पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस/आधार/वोटर आई डी/पैन कार्ड)
7. परिवार में आश्रित व्यक्तियों (केवल पति/पत्नी, पिता, माता, अपने दो बच्चे) के एक-एक व्यक्तिगत पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, सभी के जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सहित।
8. स्वयं के नाम के बचत खाते के प्रथम पृष्ठों की छायाप्रति जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड लिखा हो।
9. स्वयं का डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं ब्लड ग्रुप रिपोर्ट मूल प्रति में।

JSLPS -HRD